



प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 02 अगस्त, 2018

भारतीय मूल के गणतिज्ञ ने जीता फ़ीलड्स मेडल

- अक्षय वेंकटेश (एक प्रसिद्ध भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई गणतिज्ञ) सहित चार अन्य गणति के विशेषज्ञों को गणति का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले फ़ीलड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- उन्हें गणति के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण तथा बेहद दूरगामी अनुमानों के लिये विशिष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है।
- तीन अन्य विजेताओं में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौचर बरिंकर, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एलिसो फगाली और बोन यूनिवर्सिटी के पीटर स्कूलज हैं।

फ़ीलड्स मेडल

- 40 साल से कम उम्र के सबसे उदीयमान गणतिज्ञों को हर चार साल में एक बार अंतरराष्ट्रीय गणतीय संघ द्वारा फ़ीलड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय गणतीय संघ, गणति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है।
- 1932 में कनाडाई गणतिज्ञ जॉन चार्ल्स फ़ीलड्स के अनुरोध पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
- इस पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को 15,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

कार्कडिका वावु बाली (Karkidaka Vavu Bali)

- कार्कडिका वावु बाली, केरल में हदुओं द्वारा अपने मृत पूर्वजों का सम्मान करने के लिये किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। हर साल कार्कडिकम (Karkidakam) यानी जुलाई से अगस्त के बीच (मलयालम कैलेंडर का आखिरी महीना) अमावस्या के दिन इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है।
- इस अनुष्ठान समारोह को वावु बाली के नाम से जाना जाता है।

जीआई लोगो टैगलाइन (GI Logo, Tagline)

- भारत सरकार ने देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों (intellectual property rights - IPRs) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये भौगोलिक संकेतकों (Geographical Indications - GI) हेतु एक लोगो और टैगलाइन लॉन्च की है।
- प्राथमिक रूप से जीआई उत्पाद एक कृषिगत, प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) होता है, जिसका उत्पादन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है।
- इस तरह का टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो विशेष रूप से परभाषित भौगोलिक क्षेत्र अथवा देश में इसकी उत्पत्ति से संबद्ध होता है।
- औद्योगिक संपत्ति और व्यापार के संरक्षण से संबंधित ट्रेडिंस (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) द्वारा पेरिस समझौते के अंतर्गत भौगोलिक संकेतकों को आईपीआर के तत्त्व के रूप में शामिल किया गया है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य के रूप में भारत द्वारा सितंबर 2003 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम [Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act], 1999 को अधिनियमित किया गया।

सौर चरखा मशिन

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रम (MSME) मंत्रालय द्वारा 27 जून, 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दविस के अवसर पर सौर चरखा मशिन की शुरुआत की गई।

- यह मशिन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नयुक्त करेगा। इस मशिन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके लिये एमएसएमई मंत्रालय कारीगरों में 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित करेगा।
- इस योजना से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

पावर टेक्स इंडिया

- पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार एक एकीकृत योजना 'पावर टेक्स इंडिया' लागू कर रही है।
- भारत पूरे विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- इस योजना के तहत गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिये पावरलूमों का उन्नयन अर्द्ध-स्वचालित और शटललैस इकाइयों के रूप में किया जा रहा है।
- उन्नयन के लिये इन इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 2.16 लाख पावरलूमों का उन्नयन किया जा चुका है।
- संशोधित प्राद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Amended Technology Upgradation Funds Scheme - ATUFS) के तहत एक एकीकृत ATUFS साफ्टवेयर का विकास किया गया है।
- इस साफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी इकाइयाँ सीधे तौर पर अपने अनुप्रयोग अपलोड कर सकती हैं। ये इकाइयाँ प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति को देख सकती हैं।

संशोधित प्राद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

- सरकार ने वस्त्र और जूट उद्योग के उन्नयन के लिये 1 जनवरी, 1999 को 5 साल की अवधि के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) शुरू की थी जिससे किसानों को ब्याज वापसी प्रतपूर्ति/मूलधन में रियायत की सुविधा दी जानी थी

सरकार ने वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष को मंजूरी दी है। इस पहल से इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन के साथ-साथ नरियात को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। संशोधित योजना से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मलिया।